

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज**

पत्रांक- 1925(अनु०)

/दिनांक 18/09/24

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल अरेराज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदा०-सह०-सचिव,  
ब्राडा, बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY. NDB (AWSESH) BRRP-2 योजनान्तर्गत राशि की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY. NDB (AWSESH) BRRP-2 योजनान्तर्गत राशि का व्यय किया गया है।

अनुरोध है कि अधियाचना प्रपत्र में दर्शाये गये प्राप्त आवंटन एवं व्यय को मानते हुए अधियाचित राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। विदित हो कि कार्य का निरीक्षण किया गया जो संतोषप्रद है एवं पथ में ए०टी०आर० लंबित नहीं है।

- अनु०- 1) अधियाचना प्रपत्र।  
2) 19 ए प्रपत्र।  
3) मापी पुस्त की छाया प्रति।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल -अरेराज।

18/09/24

**Form GER 19-A**  
(See Government of India's Decision(1) bellow Rule – 150)  
Form of utilization certificate up to the month of UP to sep - 2024  
**MMGSY NDB (AWSESH) BRRP-2**

Sl No.	Name of Scheme	Sanction No.&Date with Amount ( in Rs. Lacks)	Amount Received (in Rs. Lacks)	Particulars
1	<b>MMGSY NDB (AWSESH) BRRP-2</b>	Letter No 218 anu Dated 07-03-2024 Rs-129.83185 Letter No 06 anu Dated 12-04-2024 Rs-136.67577 Letter No 56 anu Dated 19-07-2024 Rs-276.94829 Letter No 70 anu Dated 29-08-2024 Rs-18.23606	825.96012	Certified that of Rs 825.96012 Lac of grants in said sanctioned upto sep - 2024 in favour of RWD, W.D., Areraj sum of Rs 785.87513 lacks has been utilized for the purpose of MMGSY NDB (AWSESH) BRRP-2 as given sanctioned and that the balance of RS-0.01288 lacks Remaining will be utilized at the end of the period under report.
	<b>Total</b>		825.96012	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand's- in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ate being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.  
Kinds of checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction material has been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.

3. Physical Progress achieved:-
- Construction of The Road works
  - Construction of CD Works :-

18/09/24  
**EXECUTIVE ENGINEER,**  
**RURAL WORKS DEPARTMENT,**  
**WORKS DIVISION-ARERAJ.**

Name of Circle :- Mothari  
Scheme Head :- MMGSY-NDB Awasah

Division- Areraj

S.No.	Name of Road	Length (in KM)	AA Amount (in lakh)	Agreement No.	Package No.	Name of Contractor	Estimated Cost (in Lacs)		Agreement Amount	Date of Completion	Fund Received Till Date (in Lacs)	Fund Expence Till Date (in Lacs)	Value of measurement	Demand (in Lacs)	Remarks
							Main Work Amount	Maintenance							
1	PURENDERPUR TO NONIYA TOLA	1.450	174.130	02NDB/2024-25(Awasah) Date 20-08-2024	MMGSY (Awasah)-NDB-BRRP2-707-ARERAJ	M/s Utkarsh Anand Builders Pvt. Ltd	140.91805	10.10385	151.02190		0.00	0.00	47.82637	47.82637	
2	PRAMARY SCHOOL GIRI TOLA TO SHISWA POKHARA	0.850	111.800				79.63499	7.89577	87.53076		0.00	0.00	48.82426	48.82426	
3	DAMODERPUR MATHIVA TO GIRI TOLA PRAMARY SCHOOL	1.550	156.760				144.28947	8.36284	152.65231		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	KAUWAHA NAVKA TOLA HOUSE OF SIDHANATH MISHRA TO NANHKAR MATHH	1.050	126.210				92.59056	9.16946	101.76002		0.00	0.00	0.00	0.00	
5	WARD 2 RAMESWAR SINGH HOUSE HORIL CHHAPRA TO TO KANHAIVA DAS HOUSE TAK	0.400	47.640				44.63425	1.71038	46.34463		0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.3					502.06732	37.24230	539.30962		0.00000	0.00000	96.65063	96.65063	

On 18/09/2024  
Executive Engineer,  
Rural Works Department,  
Areraj Division, Areraj